

लवि-इन रलेशनशिपि के पंजीकरण हेतु वेब पोर्टल

चर्चा में क्यों?

राजस्थान [उच्च न्यायालय](#) ने राज्य सरकार को लवि-इन रलेशनशिपि के पंजीकरण के लिये एक वेब पोर्टल शुरू करने का नरिदेश दिया है।

मुख्य बदि

- **आदेश का कारण:** कई लवि-इन जोड़ों को परिवार और समाज से धमकियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप [वे अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर अनुच्छेद 21](#) के तहत सुरक्षा की मांग करते हैं।
 - [अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को यह अधिकार](#) प्रदान करता है कि यदि किसी नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो वे [सरकारी संस्था](#) के वरिद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं।
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को [आदेश और रटि जारी करने की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं।](#)
- न्यायालय ने कहा कि हालाँकि भारतीय कानून में [लवि-इन रशितों](#) को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने [\[2010\]](#), [\[2006\]](#) [\[2013\]](#) जैसे कई मामलों में नरिणय दिया है कि ऐसे रशिते [आपराधिक नहीं हैं और अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं।](#)
- **वनियमिति करने की आवश्यकता:** न्यायालय ने [लवि-इन संबंधों को वनियमिति करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला](#) तथा कहा कि इनमें [सामाजिक स्वीकृति का अभाव है](#) तथा ये कानूनी जटलिताएँ उत्पन्न कर सकते हैं, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिये।
- **प्राधिकरण की स्थापना:** जब तक कानून नहीं बन जाता, न्यायालय ने प्रत्येक ज़िले में एक सक्षम प्राधिकरण के गठन का आदेश दिया है, जो लवि-इन जोड़ों की शिकायतों को पंजीकृत करेगा और उनका समाधान करेगा।
 - सरकार को **1 मार्च, 2025 तक एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी**, जिसमें उठाए गए कदमों की रूपरेखा होगी।
- **ववाहति व्यक्तियों पर कानूनी स्पष्टीकरण:** न्यायालय ने इस मुद्दे को बड़ी पीठ को भेज दिया कि क्या बिना तलाक लिये लवि-इन रलेशनशिपि में रहने वाले ववाहति व्यक्ति सुरक्षा की मांग कर सकते हैं।
- **लवि-इन जोड़ों के लिये नया कानूनी प्रारूप:**
 - न्यायालय के आदेश में एक औपचारिक पंजीकरण प्रारूप तैयार करना भी शामिल था जिसे लवि-इन रलेशनशिपि में प्रवेश करने वाले सभी जोड़ों को पूरा करना होगा। दस्तावेज़ के अनुसार जोड़ों को ऐसे रशिते में प्रवेश करने से पहले वशिष्ट शर्तों पर सहमत होना होगा। प्रारूप में मुख्य प्रावधान नमिन्लिखित होंगे:
 - **बाल सहायता:** दोनों भागीदारों को एक **"बाल योजना"** पर सहमत होने के लिये बाध्य किया जाएगा, जिसमें संबंध से पैदा होने वाले किसी भी बच्चे की **शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल** और **सामान्य पालन-पोषण** के लिये उनकी संबंधित ज़मिमेदारियों को रेखांकित किया जाएगा।
 - **भरण-पोषण:** पुरुष साथी को अनरजक (गैर-कमाऊ) महिला साथी और संबंध से उत्पन्न बच्चों की आर्थिक सहायता करने तथा उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़मिमेदारी होगी।

संवैधानिक नैतिकता को कायम रखने वाले ऐतिहासिक नरिणय

- [\[2006\]](#):
 - अंतरजातीय और अंतरधार्मिक जोड़ों को उत्पीड़न और हिसा से सुरक्षा प्रदान करने का नरिदेश दिया गया।
- [\[2010\]](#):
 - **ववाह के बाहर वयस्कों** के बीच सहमति से बनाए गए यौन संबंधों को कानूनी और गोपनीयता के अधिकार के अंतर्गत घोषित किया गया।
- **नाज़ फाउंडेशन बनाम दलिली सरकार (2009):**
 - [भारतीय दंड संहिता की धारा 377](#) को अधिकारों का उल्लंघन घोषित करते हुए, वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।
- [\[2018\]](#):
 - [व्यभचार](#) को अपराध से मुक्त कर दिया गया तथा इसे **समानता, सम्मान, गोपनीयता और स्वायत्तता के अधिकारों का उल्लंघन घोषित किया गया।**

- **2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 (2018):**
 - **LGBTQ+** व्यक्तियों के अपने यौन रुझान और पहचान को सम्मान के साथ व्यक्त करने के अधिकारों की पुष्टि की गई।
- **2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 (2018):**
 - किसी भी धर्म या जातकी परवाह किये बिना अपनी पसंद के व्यक्तिसे विवाह करने के अधिकार को मान्यता दी गई, जिससे हिंदू-मुस्लिम विवाह के नरिसन को अमान्य कर दिया गया।
- **2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 (2018):**
 - अंतरजातीय और अंतरधार्मिक जोड़ों के वरिद्ध हिसा और सम्मान के नाम पर हत्या की नदि की गई तथा रोकथाम और सुरक्षा के लिये दशा-नरिदेश जारी किये गए।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/web-portal-for-registering-live-in-relationships>

